



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1934 (श0)
(सं0 पटना 17) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

10 अक्टूबर 2012

सं0 22/नि0सि0 (पट0) 3-12/2012/1102—श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल को पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, करबिगहिया, पटना के अंतर्गत जल संसाधन विभाग, के जमीन पर जालसाजी कर बहुमंजिली ईमारत निर्माण में उनकी सक्रिय अन्तर्लिप्तता एवं सक्रिय भूमिका रहने के प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित आरोप के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन की अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन की अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है।

4. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है। विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
श्याम कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 17-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>